



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 06.11.2020

1-थाना दादरी पुलिस द्वारा दुष्कर्म का आरोपी एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 6.11.2020 को थाना दादरी पुलिस द्वारा मु0अ0स0 373/2002 धारा 376 भादवि0 मे वांछित अभियुक्त आसकरण पुत्र नारायण निवासी रायपुर बांगर थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

आसकरण पुत्र नारायण निवासी रायपुर बांगर थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 373/2002 धारा 376 भादवि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

2- थाना दादरी पुलिस द्वारा दुष्कर्म का आरोपी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.11.2020 को दादरी पुलिस द्वारा मु0अ0स0 595/2012 धारा 376/506 भादवि0 का वांछित अभियुक्त नईमुददीन पुत्र साबुददीन निवासी मौ0 मेवातियान कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

नईमुददीन पुत्र साबुददीन निवासी मौ0 मेवातियान कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 595/2012 धारा 376/506 भादवि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

3- थाना बिसरख पुलिस द्वारा 01 बाल अपचारी समेत 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 05.11.2020 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा 01 बाल अपचारी समेत 03 अभियुक्त 1. नकुल पुत्र लाखन सिंह निवासी ग्राम महका थाना अतरौली जनपद अलीगढ वर्तमान पता कस्बा हलद्वानी थाना ईकोटैक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर 2. सोनू पुत्र विनोद निवासी ग्राम देहरा थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर वर्तमान पता संजीव का मकान कस्बा हलद्वानी थाना ईकोटैक 3 3. 01 बाल अपचारी को चैकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के सुदामा पुरी पुलिया से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाइकिल 1. टीवीएस स्पोर्ट नं० DL 7SCA 3072 2. स्लैण्डर रजि० नं० DL 7SCG 7891 3. स्लैण्डर रजि० नं० UP 14 DR 0276 4. स्लैण्डर रजि० नं० UP 14 DU 1077 बरामद हुई है।

अभियुक्तों का विवरण-

1. नकुल पुत्र लाखन सिंह निवासी ग्राम महका थाना अतरौली जनपद अलीगढ वर्तमान पता कस्बा हलद्वानी थाना ईकोटैक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर
2. सोनू पुत्र विनोद निवासी ग्राम देहरा थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर वर्तमान पता संजीव का मकान कस्बा हलद्वानी थाना ईकोटैक 3 जनपद गौतमबुद्धनगर
3. एक बाल अपचारी

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं० 696/2020 धारा 414 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
2. मु०अ०सं० 695/2020 धारा 379/411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

04 चोरी की मोटरसाइकिल

4- थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल, 02 मोबाइल फोन व दो अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 06.11.2020 को थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा दो अभियुक्त 1. अजय गौतम पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम खेरली भाव थाना रबूपुरा 2. सुमित कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी कुलेसरा हलद्वानी मोड टेण्ट वाली गली थाना फेस 2 को थाना क्षेत्र के सेक्टर 64 सहारा कट से गिरफ्तार किया गया

है। अभियुक्तों के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर मय फर्जी नम्बर प्लेट व दो मोबाइल फोन व दो अवैध चाकू बरामद किये गये हैं।

अभियुक्तों का विवरण-

1. अजय गौतम पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम खेरली भाव थाना रबूपुरा जिला गौतमबुद्धनगर।
2. सुमित कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी कुलेसरा हल्द्वानी मोड टेण्ट वाली गली थाना फेस 2 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0 830/20 धारा 414/482 भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0 831/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0स0 832/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. एक चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर मय फर्जी नम्बर प्लेट।
2. दो मोबाइल
3. दो अवैध चाकू

5- थाना नॉलेज पार्क द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.11.2020 को थाना नॉलेज पार्क द्वारा मु0अ0स0 372/2020 धारा 354,506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त प्रवीण कुमार पुत्र कलवा सिंह निवासी ग्राम महाव थाना स्याना जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता तेजा मार्केट रंजीत का मकान ग्राम तुगलपुर थाना नॉलेज पार्क को थाना क्षेत्र के विश्वभारती कट से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

प्रवीण कुमार पुत्र कलवा सिंह निवासी ग्राम महाव थाना स्याना जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता तेजा मार्केट रंजीत का मकान ग्राम तुगलपुर थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 372/2020 धारा 354,506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर

6- थाना कासना पुलिस द्वारा चोरी के फोन के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.11.2020 को थाना कासना पुलिस द्वारा चोरी के फोन के साथ एक अभियुक्त सन्दीप पुत्र कुवरपाल निवासी दादूपुर थाना दनकौर को थाना क्षेत्र के एशियन पेन्ट कम्पनी के सामने से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक चोरी का मोबाइल ओप्पो कम्पनी का बरामद किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

सन्दीप पुत्र कुवरपाल निवासी दादूपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 320/2020 धारा 380/411 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर

बरादमगी का विवरण-

एक मोबाइल फोन ओप्पो कम्पनी

7- थाना बिसरख पुलिस/एसओजी टीम(अपराध शाखा) द्वारा चैरी काउंटी सोसाइटी में हुए दोहरे

हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए 02 हत्यारे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 72000/ रूपये , एक चेकबुक, एक फोन, रक्त रंजित कपडे व एक चाकू बरामद।

पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा पुलिस टीम को 1,00,000 रूपये का पुरस्कार देने घोषणा।

थाना बिसरख पुलिस/एसओजी टीम(अपराध शाखा) द्वारा थाना क्षेत्र बिसरख मे हुए दोहरे हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए 02 हत्यारे अभियुक्त 1. अमन हयात खान पुत्र मुंतहा खान निवासी ग्राम दरियापुर थाना संग्रामपुर जिला मोतीहारी बिहार वर्तमान पता सी 1702 फ्रेंच अपार्टमेंट बिसरख 2.सौरभ पुत्र किशनलाल निवासी ग्राम खडर जिला मौहाली पंजाब वर्तमान निवासी फ्लैट नं0-1008 ए टावर स्प्रिंग मीडोज बिसरख को थाना क्षेत्र के गैलेक्सी वेगा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से मृतक दम्पति से लूटे गये 72000/ रूपये, एक चेकबुक, एक वीवो फोन, रक्त रंजित कपडे व एक चाकू बरामद हुआ है।

(पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 1,00,000 रूपये का पुरस्कार देने का घोषणा की गई है।)

घटना का विवरण-

दिनांक 03.11.2020 को थाना बिसरख क्षेत्र की चैरी काउंटी सोसाइटी में निवास करने वाले दम्पति विनय कुमार तथा श्रीमती नेहा गुप्ता की उनके फ्लैट नं०- बी 2 906 में अज्ञात बदमाश के द्वारा हत्या कर दी गई थी जिस सम्बन्ध में थाना बिसरख पर अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसका सफल अनावरण करते हुए पुलिस द्वारा अभियुक्त अमन हयात खान को गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अमन हयात खान पुत्र मुंतहा खान निवासी ग्राम दरियापुर थाना संग्रामपुर जिला मोतीहारी बिहार वर्तमान पता सी 1702 फ्रेंच अपार्टमेंट बिसरख गौतमबुद्धनगर
2. सौरभ पुत्र किशनलाल निवासी ग्राम खडर जिला मौहाली पंजाब हाल फ्लैट नं०- 1008 ए टावर स्पिंग मीडोज बिसरख गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 694/2020 धारा 302/394/411/120बी भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. मृतको से लूटे गये 72000/ रूपये,
2. एक चेकबुक
3. एक वीवो फोन
4. रक्त रंजित कपडे
5. एक चाकू

प्रेस विज्ञप्ति

आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में सरकार एवं शासन की मंशा के अनुरूप कानून एवं शांति व्यवस्था कायम कराने के लिए पुलिस कमिश्नर के समस्त अधिकारीगण कृत संकल्पित ।

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह नोएडा सेक्टर 8 की मस्जिद, निठारी एवं अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में पहुंचे कानून एवं शांति व्यवस्था के उद्देश्य से अधीनस्थ अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

आने वाले त्योहारों को लेकर ड्रोन कैमरे से रखी जा रही निगरानी, त्योहारों के दृष्टिगत जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था/कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी संवेदनशील/भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सघन चैकिंग के लिए आदेश ।

गौतम बुद्ध नगर जिले में चप्पे-चप्पे पर कानून व्यवस्था को अच्छा रखने के लिए रखी जाएगी नजर।

जनपद की शांति एवं कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह से लेकर डीसीपी राजेश एस. जॉन प्रथम, एडीसीपी रणविजय सिंह और पुलिस टीम ग्राउंड ज़ीरो पर आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर में कानून एवं शांति व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार एवं शासन की मंशा के अनुरूप बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के समस्त अधिकारी कृत संकल्पित हैं। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ स्वयं मौके पर पहुंचकर कानून एवं शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण करते हुए अपने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आज पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह एवं उनके सहयोगी अधिकारी डीसीपी जॉन प्रथम राजेश एस, एडीसीपी रणविजय सिंह एवं पुलिस टीम के साथ कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ग्राउंड जीरो पर नोएडा सेक्टर 8 की मस्जिद, निठारी तथा अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों का सघन दौरा किया गया। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने अपने स्थल निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी त्योहारों पर पूरे जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था सरकार की मंशा के अनुरूप कायम रहे इसके लिए संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों में शरारती तत्वों पर ड्रोन कैमरे से गहनता के साथ निगरानी बना कर रखी जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि सभी पुलिस अधिकारी गण अपने अपने क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सघन भ्रमण सुनिश्चित करेंगे साथ ही छोटी से छोटी घटनाओं को तत्काल संज्ञान लेकर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी पुलिस अधिकारियों के द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए सघन चैकिंग अभियान भी संचालित किया जाएगा।





प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 06.11.2020 को समय 16:00 बजे पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के निर्देश पर अग्रसेन भवन सेक्टर 33 नोएडा में श्री रजनीश वर्मा सहायक पुलिस आयुक्त द्वितीय नोएडा / नोडल अधिकारी व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा गौतमबुद्धनगर के व्यापारियों के साथ गोष्ठी की गई। जिसमें जनपद से करीब 150 व्यापारियों ने भाग लिया, गोष्ठी में व्यापारियों द्वारा अपनी अपनी समस्याओं तथा सुझावों से अवगत कराया गया। गोष्ठी में आये व्यापारियों को नोएडा पुलिस की ओर से प्रारंभ किये गए नवगठित व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के बारे में जानकारी दी गई जिसका उद्देश्य व्यापारियों की सभी समस्याओं का निराकरण समय बद्ध तरीके से किये जाने तथा अन्य सुरक्षा संबंधी निम्न दिशा निर्देश भी दिए गए।

1. सभी व्यापारी सुरक्षा की दृष्टिकोण से अपने अपने प्रतिष्ठानों व दुकानों में सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगवा ले।
2. अपने कर्मचारी व सुरक्षाकर्मियों पर ध्यान रखें।
3. किसी प्रकार के अपराधी द्वारा धमकी दी जाती है तो तत्काल पुलिस से संपर्क करें।
4. सभी व्यापारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने-अपने प्रतिष्ठान व दुकानों के आस-पास यदि कोई वाहन ज्यादा देर तक दिखाई दे या कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक खड़ा दिखाई दे या संदिग्ध प्रतीत हो तो तत्काल पुलिस को सूचना दें।
5. दुकानों में सुदृश्य स्थान पर पुलिस अधिकारी/थाने का दूरभाष नंबर अवश्य अंकित किया जाए।
6. सभी व्यापारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने-अपने प्रतिष्ठान व दुकान में पसारा एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत सिक्वोरिटी एजेंसियों से ही सुरक्षा गार्डों को रखें।

7. सभी व्यापारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने प्रतिष्ठान व दुकानों पर रखने वाले सुरक्षा गार्ड के सत्यापन की कार्रवाई अवश्य करा लें।
8. सभी व्यापारी अपनी दुकानों के सामने अनावश्यक दुकानें न लगाएं।
9. सभी व्यापारी बन्धुओं के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जायेगा।